

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरातना कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited

(AMiniratna Company)

(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

पत्रक० एनसीएल / ज०स०वि० / प्रेसवि० / 2017-18 / 357

दिनांक - 28 / 10 / 2017

प्रेस विज्ञप्ति

एनसीएल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह सोमवार से

विभिन्न विषयों पर होगा दिग्गजों का व्याख्यान

भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) में 30 अक्टूबर (सोमवार) से 04 नवंबर 2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। एनसीएल में सतर्कता से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने के मकसद से आयोजित किए जाने वाले इस सप्ताह के दौरान कंपनी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एनसीएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री श्री ए.के. श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में सतर्कता विभाग की टीम द्वारा आयोजित किए जाने वाले इन कार्यक्रमों में कंपनी के अधिकारियों-कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में हितग्राही (stakeholders) हिस्सा लेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशानुसार इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम “मेरा लक्ष्य - भ्रष्टाचार मुक्त भारत” रखी गई है।

एनसीएल मुख्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत सोमवार को 8.30 बजे स्कूली बच्चों की सतर्कता दौड़ से होगी, जिसे महाप्रबंधक (सतर्कता) श्री टी.वी. गंगाधर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह दौड़ सीएमडी ऑफिस से शुरू होकर वर्कर्स क्लब तक जाकर संपन्न होगी। इसके पश्चात सुबह 10.15 बजे सीएमडी ऑफिस के सामने कंपनी के अधिकारियों-कर्मचारियों को सतर्कता शपथ दिलाई जाएगी।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का औपचारिक शुभारंभ सोमवार को सुबह 11.00 बजे मुख्यालय स्थित केंद्रीय उत्खनन प्रशिक्षण संस्थान (सी.ई.टी.आई) में होगा, जिसमें हरियाणा के भूतपूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री कृष्ण मोहन बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। सप्ताह के दौरान सतर्कता पत्रिका 'दर्पण' का विमोचन भी किया जाएगा।

एनसीएल मुख्यालय स्थित केन्द्रीय उत्खनन प्रशिक्षण संस्थान (सी.ई.टी.आई.) में 30 अक्टूबर से 04 नवंबर तक कई विषयों पर विशेषज्ञ कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों को व्याख्यान देंगे। कंपनी मुख्यालय में 01 नवंबर को सुबह 11 बजे से वेंटर्स मीट का आयोजन भी किया जाएगा। जेम (गवर्नमेंट ई-मार्केटिंग) पोर्टल के विषय में व्यापक जानकारी दिए जाने के उद्देश्य से 02 नवंबर को सुबह 10 बजे से सी.ई.टी.आई. में वर्कशॉप का आयोजन भी किया जाएगा। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य कंपनी के अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्य के प्रति सजग एवं सतर्क बनाने हेतु प्रेरित करना होगा। एनसीएल की विभिन्न परियोजनाओं में भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

गौरतलब है कि इस वर्ष सतर्कता से जुड़े संदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह शुरू होने से पहले ही सतर्कता से संबंधित

'ई-प्रतिज्ञा' दिलाए जाने की मुहिम भी चलाई जा रही है। यह 'ई-प्रतिज्ञा' केंद्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट एवं कोल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध किसी भी वेबसाइट पर जाकर अपने बुनियादी विवरण के साथ पंजीकरण कर 19 भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में यह 'ई-प्रतिज्ञा' ले सकता है। खास बात यह है कि प्रतिज्ञा लेने वाले को ई-मेल के माध्यम से सीवीसी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिज्ञा प्रमाण-पत्र भी दिया जाता है।

जनसंपर्क अधिकारी